

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना



सहमति-सह-घोषणा फार्म

स्वीकृत योजना के दौरान "नामांकन अवधि" में शामिल होने वाले सदस्यों द्वारा भरा जाए

एजेंसी / बीसी कोड

बचत बैंक खाता सं.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

योजना में शामिल होने की तिथि: 1 जून/जुलाई/अगस्त/सितंबर, 2015

1. पूरा नाम	5. मोबाईल /संपर्क सं.
2. पता	6. आधार सं., यदि उपलब्ध हो
3. जन्मतिथि (के वाई सी दस्तावेज के अनुसार) (दिन/माह/वर्ष)	7. क्या किसी अशक्तता से प्रभावित हैं यदि हाँ तो उसका विवरण
4. ईमेल आईडी	8. नामिति का नाम व पता तथा उसके साथ संबंध ,यदि कोई है ,
9. अभिभावक का नाम व पताबालिग हैमिति नायदि ना ,	

मैं एतद्वारा बनने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ जोका सदस्य 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' उपरोक्त बैंक द्वारा मास्टर पॉलिसीधारक के रूप में प्रशासित की जाएगी। मैं एतद्वारा आपकी शाखा में चल रहे अपने बचत खाते में से आज रूप 12/- तथा सेवा करतवर्ती वर्ष में पश्चामई को या उससे पूर्व प्रत्ये 31 और ,यदि लागू हो ,, अगले प्रतिकूल निर्देशों तक मुझे तुरंत सूचना सहित रूप बारह या संशोधित निर्णित राशि की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। (जो लागू न हो काट दें)

मैं एतद्वारा अपनी मृत्यु होने पर योजना के अंतर्गत लाभों के लिए उपरोक्त नामिति को नामित करता हूँ। नामिति के योजना के अंतर्गत , की दशा में वर्ष की आयु तक पहुँचने से पूर्व मेरी मृत्यु 18 नामिति के विधिक अभिभावक को नियुक्त से मैं एतद्वारा उपरोक्त करने के उद्देश्यलाभों को प्राप्त करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगा तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

मैं योजना में नामांकन की तिथि के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ।

मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने के बाद भी योजना में शामिल होने पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ।

मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर वर्ष की आयु होने 70 तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी।

मैं उपरोक्त योजना के सभी नियमों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं ,आपके द्वारा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में ,कथथावश्य ,मेरा व्यक्तिगत विवरण(बीमा कंपनी का नाम जो पहले से प्रिंट हो)..... को देने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण पूर्ण रूप से सत्य हैं तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी तथा यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरी सदस्यता रद्द समझी जाएगी।

दिनांक: _____

खाताधारक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सत्यापित
(बैंक शाखा प्राधिकारी)

पावती सह बीमा प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा श्री..... श्रीमती/, बचत खाता संख्या आधार संख्या (होयदि उपलब्ध) जिन्होंने मास्टर पॉलिसी संख्या..... के अंतर्गत.....(बीमा कंपनी का नाम)में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' में शामिल होने के लिए निर्दिष्ट बचत बैंक खाते से स्वतः निकासी के लिए :सहमति दे दी है और प्राधिकृत कर दिया है, से की प्राप्ति "घोषणा पत्र-सह-सहमति" स्वीकार करते हैं और पावता और विचार राशि की प्राप्ति के बारे में जानकारी की शुद्धता के अधीन योजना के अनुसार कवरेज प्रमाणित करते हैं।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर